



## नव वर्ष संदेश...



प्रिय साथियों,

नव वर्ष की शुभकामनाएं । आप सभी की मेहनत से गत वर्ष उपलब्धियों से भरा रहा है एवं नव वर्ष 2017 अनेकानेक अवसर के साथ सामने है । नये वर्ष में कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिजनों की सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की अभिलाषा करता हूँ । वर्ष 2016 में कम्पनी, तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए, कई वर्षों के बाद लाभ की ओर अग्रसर है और हमारे सामने उत्तरोत्तर उन्नति के लिए नये अवसर उपलब्ध हैं । कम्पनी के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में आपकी सहभागिता हेतु आह्वान के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं ।

वर्ष 2017 प्रतिस्पर्धा का नया दौर लेकर उपस्थित हुआ है, जिसमें बढ़ती हुई विद्युत की मांग, नवीनतम तकनीकी का प्रयोग, मानव संसाधन का समुचित दोहन, ताप संयंत्रों का हीट रेट, पर्यावरण संरक्षण के नए कड़े मापदंड आदि के साथ-साथ मेरिट आर्डर प्रणाली से सम्बंधित चुनौतियाँ भी हैं । उल्लेखित चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम सभी का यह सम्मिलित प्रयास रहे कि हम अपने सम्पूर्ण कौशल एवं क्षमता के साथ आगत परिस्थितियों में दक्षतापूर्ण कार्य निर्वहन करें । श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह द्वितीय चरण की निर्माणाधीन इकाइयों को निर्धारित लक्ष्य से पूर्व क्रियाशील कर वाणिज्यिक उत्पादन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है ।

साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों के समय त्वरित निराकरण की हमारी क्षमता का समग्र रूप से उन्नयन आवश्यक है । इस हेतु प्रबंधन का लक्ष्य समग्र रूप से उपलब्ध मानव संसाधन का वांछित क्षेत्रों में यथोचित रूप से युक्तियुक्तकरण है । कम्पनी के कार्मिकों को समुचित रूप से प्रशिक्षण मिल सके, इस हेतु संजय गांधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर में केन्द्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है । नवीन तकनीक यथा ईआरपी मॉड्यूल का क्रियान्वयन इत्यादि कम्पनी की बहुआयामी प्रगति में नये आयाम स्थापित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ।

इस संदेश के माध्यम से मैं कम्पनी के सेवानृत्त कार्मिकों को भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और नवआगंतुक कार्मिक प्रशिक्षुओं को कम्पनी परिवार में स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ । आइये हम म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के इस लक्ष्य को अपना ध्येय बनायें – हम सब कम्पनी को ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग यथासंभव न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सर्वोत्तम तकनीकी के प्रयोग के द्वारा देश में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेंगे, जिससे कम्पनी की राष्ट्रस्तरीय साख स्थापित होगी ।

पुनश्च: कम्पनी कार्मिकों एवं उनके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि एवं विकास हेतु मेरी हृदय से शुभकामनाएं ।

आनन्द प्रकाश भैरवे  
प्रबंध संचालक  
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि